

तुरंत रिलीज के लिए

## एफ.डी.आई. इंटेलिजेंस के द्वारा 2021 रैंकिंग के साथ ब्रैम्पटन को भविष्य के और मुख्य निवेश स्थान के प्रमुख शहर की पोजीशन प्रदान की गई

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (18 जून, 2021) – आज, फाइनेंशियल टाइम्स (यू.के.) (Financial Times) (UK) की डिवीजन, एफ.डी.आई. इंटेलिजेंस (fDI Intelligence) ने अपने अमेरिकन सिटीज ऑफ द यीअर अवॉर्ड्स (American Cities of the Year Awards) के नतीजों की घोषणा की, जिसमें सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, टॉप 10 मिड-साइज्ड अमेरिकन सिटीज ऑफ द फ्यूचर (Top 10 Mid-Sized American Cities of the Future) श्रेणी में छठा स्थान हासिल हुआ है।

ब्रैम्पटन ने, टॉप 10 मिड-साइज्ड अमेरिकन सिटीज ऑफ द फ्यूचर – कनेक्टिविटी (Top 10 Mid-Sized American Cities of the Future – Connectivity) श्रेणी में दूसरा और टॉप 10 अमेरिकन सिटीज फॉर एफ.डी.आई. स्ट्रेटजी (Top 25 American Cities for FDI Strategy) श्रेणी में बारहवां स्थान भी हासिल किया है।

ब्रैम्पटन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) (Foreign Direct Investment) (FDI) ने, सिटी के मुख्य सेक्टर पर फोकस करने के प्रयास जारी रखे हैं। ये सेक्टर हैं: इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (Innovation and Technology), एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing), फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग (Food and Beverage Processing) और हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज (Health and Life Sciences)। 2020 में, सिटी की एफ.डी.आई. स्ट्रेटजी के हिस्से के तौर पर, बिजनेस रिटेंशन एंड एक्सपेंशन (Business Retention and Expansion) पर अधिक जोर दिया गया था।

मई, 2020 में ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) के द्वारा मंजूर किया गया निवेश, सिटी की [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) का मुख्य आधार है। सिटी के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) का लगातार विकास, इस कार्यनीति का एक अन्य मुख्य काम है। इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी का उद्देश्य, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था को बेहतर स्थिति में और प्रतिस्पर्धी फायदे में लाना है और यह सिटी को कोविड-19 (COVID-19) से आगे बढ़ने में मदद करेगा।

ब्रैम्पटन को पहली बार एफ.डी.आई. इंटेलिजेंस से मान्यता नहीं मिली है। इन रैंकिंग्स का, प्रत्येक दो वर्ष में नवीकरण किया जाता है। पिछले आठ वर्षों से, ब्रैम्पटन ने बिजनेस फ्रेंडलीनेस (Business Friendliness), सिटी ऑफ द फ्यूचर (City of the Future), इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) और कनेक्टिविटी (Connectivity) जैसी श्रेणियों में लगातार जीत या लगभग टॉप पोजीशन हासिल की है।

एफ.डी.आई. इंटेलिजेंस, शहरों को रैंकिंग देते समय पांच श्रेणियों पर विचार करती है। ये श्रेणियां हैं: इकोनॉमिक पोटेंशियल (Economic Potential), बिजनेस फ्रेंडलीनेस, ह्यूमैन कैपिटल एंड लाइफस्टाइल (Human Capital and Lifestyle), कॉस्ट इफेक्टिवनेस (Cost Effectiveness) और कनेक्टिविटी।

रैंकिंग्स के पूरे नतीजे और इस बारे में अधिक जानकारी, [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।

## हवाले

“ब्रैम्पटन, प्रतिस्पर्धी प्रतिभाओं वाला अवसरों का शहर है, जो इनोवेशन की ओर अग्रसर है। हमें टॉप 10 मिड-साइज्ड अमेरिकन सिटीज ऑफ द फ्यूचर के तौर पर एफ.डी.आई. इंटेलिजेंस के द्वारा, दुबारा मान्यता दिए जाने पर गर्व है। यह अवॉर्ड उन बातों की पुष्टि करता है, जो हम पहले से ही जानते हैं – ब्रैम्पटन एक सर्वश्रेष्ठ शहर है और ग्लोबल कारोबारियों के लिए निवेश हेतु एक मुख्य स्थान है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चूंकि हम शहर को दुबारा खोलना शुरू कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी के प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं, निवेश, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था को बेहतर स्थिति और मुकाबलेदार फायदे में लाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। हमें एफ.डी.आई. इंटेलिजेंस के द्वारा, उनके अमेरिकन सिटीज ऑफ द यीअर अवॉर्ड्स के लिए दुबारा मान्यता दिए जाने पर गर्व है और हम इस बारे में अधिक जानने के लिए कौन-सी चीज़, ब्रैम्पटन को भविष्य का मुख्य शहर बनाती है, सभी विदेशी कंपनियों का स्वागत करते हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“निवेश, सिटी की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी का मुख्य आधार है और ब्रैम्पटन अपनी स्थिति को, एक इनोवेटिव शहर और पूरी दुनिया के कारोबार के लिए मुख्य निवेश स्थान के तौर पर बनाने के लिए समर्पित है। हम एफ.डी.आई. की मान्यता का स्वागत करते हैं कि ब्रैम्पटन भविष्य में, एक टॉप मिड-साइज्ड सिटी होगा। सर्वश्रेष्ठ शहर के तौर पर, हम कारोबार चाहते हैं और हमारी कम्युनिटी में विदेशी निवेश का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और कैनडा के इनोवेशन कॉरिडोर पर हमारा मुख्य स्थान और हमारे प्रतिस्पर्धी कार्यबल के साथ, हम विदेशी कारोबारों के स्थापित होने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्थान के तौर पर खुद को स्थापित करना जारी रखेंगे। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के स्टाफ के द्वारा, मैं दुबारा एफ.डी.आई. इंटेलिजेंस की ओर से एक मुख्य निवेश स्थान के तौर पर मान्यता दिए जाने पर बेहद गर्व महसूस कर रहा हूँ और ब्रैम्पटन की हर पेशकश के बारे में चर्चा करने के लिए, हमारे समर्पित इकोनॉमिक डिवेलपमेंट स्टाफ को संपर्क करने के लिए विदेशी कारोबारियों का स्वागत करता हूँ।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)